

DCSL/2022-23/48

Date: 07-01-2023

To The General Manager Department of Corporate Services, BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Re: Newspaper Publication of Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM), E-voting Information of our Company, Dhruva Capital Services Limited.

Ref: Scrip Code: 531237

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 30 read with Part A, Para A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement published in following newspapers on January 4, 2023 for the Notice of Extra Ordinary General Meeting of Dhruva Capital Services Limited, to be held on Saturday, January 28, 2023 at 11:30 AM and E-voting information in terms of Section 108 of The Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Financial Express in English – on 4th January 2023,
 Pratahkal in Hindi – on 4th January 2023.

This is for your information and records in compliance with the Listing Regulations.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours truly

For Dhruva Capital Services Limited

(Ritika Kumawat)

Company Secretary &

Compliance Officer

M NO.: A63864

Encl: As stated above

FINANCIAL EXPRESS

RIL arm to pick up 50% in Sosyo Hajoori Beverages in FMCG push

KRITIKA ARORA Mumbai, January 3

RELIANCE CONSUMER PROD-**UCTS** (RCPL), the FMCG arm and a wholly owned subsidiary of Reliance Retail Ventures, will acquire 50% stake in Gujaratbased Sosyo Hajoori Beverages (SHBPL), which owns and operates a beverage business under the flagship brand 'Sosyo', RCPL said in a press release.

The existing promoters, Hajoori family, will continue to own the remaining stake in SHBPL. Sosyo is an Indian brand with

around 100 years of legacy in carbonated soft drinks and juices. It has several beverage brands in its portfolio including Sosyo, Kashmira, Lemee, Ginlim, Runner, Opener and Hajoori Soda. Speaking on the investment, Isha Ambani, executive director of RCPL said, "This investment helps us take forward our vision of empowering local heritage brands and presenting them with new growth opportunities."

RCPL aims to empower

This investment helps us take forward our vision of empowering local heritage brands and presenting them with new growth opportunities

ISHA AMBANI, EXECUTIVE DIRECTOR, RCPL

Indian consumers with a bouquet of indigenously developed consumer brands and products which offers superior value, the company said.

Recently, RCPL also announced the launch of its

consumer packaged goods brand 'Independence' in Gujarat, with plans for national rollout as part of its ambition in the FMCG segment.

Earlier, as part of its entry into the FMCG segment, Reliance had acquired home-grown soft drink brand Campa. With this joint venture, Reliance will further strengthen its portfolio in the beverage segment having already acquired brand Campa. In addition, Sosyo's expertise in formulations can be leveraged to develop unique value proposition for the product portfolio and consumers, RCPL said.

According to some reports, it was also in talks to acquire Garden, Lahori Zeera and Bindu Beverages, among others. In addition, RCPL is creating a distinct and dedicated retail distribution network for its fastexpanding consumer brands portfolio, it said.

Reliance Retail Ventures, the retailarm of Reliance Industries, operates more than 16,500 own stores and has over 2 million merchants across grocery, electronics, apparel etc.



Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.barodabnpparibasmf.in . Toll Free: 18002670189

NOTICE NO. 01/2023

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Scheme of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

Notice is hereby given to all the unitholders of Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund ("Scheme"), that following shall be the rate of distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of respective plan under the Scheme with Monday, January 09, 2023^ as the Record Date:

Name of the Scheme	Name of Plans/ Options	NAV per unit as on January 02, 2023 (face value per unit of ₹10/-)	Distribution per unit** (In ₹)
Baroda BNP Paribas	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10.1843	0,038
Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10.4597	0.044

^or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date

*Net distribution amount will be paid to the unit holders under respective categories after deducting applicable

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date shall be considered

Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Formerly BNP Paribas Asset Management India Private Limited)

(Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Authorised Signatory

Date : January 03, 2023 Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



IDBI Asset Management Limited

CIN: U65100MH2010PLC199319 Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Corporate Office: 4th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Tel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 31/2022-23

CHANGE IN RISK-O-METER

Investors are requested to note that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, the Risk-o-meter of the following Schemes of IDBI Mutual Fund stand revised as under, based on evaluation of risk level of Schemes Portfolios as on December 31, 2022:

Name of	Product Labelling#	Existing Risk-o-meter	Revised Risk-o-meter			
the scheme	This product is suitable for investors who are seeking*:					
IDBI LIQUID FUND (An open-ended Liquid Scheme. A Relatively Low interest rate risk and moderate credit risk scheme.)	High level of liquidity along with regular income for short term Investments in Debt/ Money market instruments with maturity / residual maturity up to 91 days	Low to Moderate Moderately High High High Wery High Investors understand that their principal will be at Low to Moderate Risk	Low to Moderate Moderately High High High High High High High High			
IDBI ULTRA SHORT TERM FUND (An open-ended Ultra short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months and 6 months**. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk scheme.)	Regular income for short term Investments in Debt / Money market instruments with relatively lower interest rate risk, such that the Macaulay duration of the portfolio is maintained between 3 months to 6 months	Noderate Moderately High High High High High High How Wery High Investors understand that their principal will be at Low to Moderate Risk	Low to High High High High High High High High			
	*Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for the					

"Please refer page no. 26 of Scheme information document of IDBI ULTRA SHORT TERM FUND

This Addendum shall form an integral part of Scheme Information Document / Key Information Memorandum of above stated schemes of IDBI Mutual Fund, as amended from time to time. All other features and terms and conditions as stated in the SID/KIM of the Schemes shall remain unchanged.

> For IDBI Asset Management Limited (Investment Manager to IDBI Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: January 3, 2023 Company Secretary and Chief Compliance Officer

IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee ("Trustee" under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with

HEADWINDS IN BIG TECH TO IMPACT

Media industry to see revenue growth of 12-14% in FY24: Crisil

Digital to lead followed by TV and print

ALOKANANDA CHAKRABORTY New Delhi, January 3

THE INDIAN MEDIA and entertainment (M&E) sector is expected to post revenue growth of 12-14% year-on-year to approximately ₹1.6 trillion in FY24, against around 16% growth expected this fiscal, according to a report by Crisil Ratings. The revenue growth from advertising would be led by digital platforms, followed by TV and print, the report added.

Advertisement revenue, which accounts for around 55% of the sector's revenue, will grow 14%, with the general elections expected in mid-2024 triggering an increase in adspend in the last quarter of next fiscal. Subscription revenue, accounting for the balance (45%), will grow at a slower pace of around 12%, led by strong recovery in business. If film exhibition is excluded, the revenue growth would be a modest 4-5%.

Dheeraj Sinha, CEO, Leo Burnett,SouthAsia&chairman,BBH India, has already warned of a challenging year ahead for the advertising industry. "We will face the headwinds of the slowdown in the big tech companies as well as the start-up ecosystem," he said. As per the Crisil report, televi-

sion will continue to hog the biggest share of the ad revenue

Target Company ("TC")

Target Company

Manager to the Offer

Acquirer

Details of the Offer pertaining to the

Company (Director, Equity shares owned, any


other contract/relationship), if any

Any other matter to be highlighted

Place: Mumbai

Date: 4th January, 2023

Indian M&E revenue to surpass pre-pandemic level this fiscal and reach ₹1.6 trillion by FY24



pie but digital will lead in terms of rate of growth, rising 15-18% annually over the medium term. TV ad revenue growth rate is expected to be 12-14% in FY24. For its part, the print media will see healthy ad revenue growth of about 15% next fiscal, but would fall short of the pre-pandemic growth level because of slow recovery in ad yields, especially for English editions. Other hyperlocal media such as radio and outdoor could reach pre-pandemiclevels next fiscal, helped to an extent by higher ad budgets for micro, small and medium enterprises, the key drivers for these segments, said the report. Naveen Vaidyanathan, direc-

tor, Crisil Ratings, said, "Television has emerged as the medium of choice in the past few years amid accelerated adoption of over-thetop(OTT)platforms,onlinegaming,e-commerce,e-learning,and online news platforms. After the pandemic, digital has become the second-largest segment after TV in terms of ad spends. Together,

they account for over threefourths of the ad revenue for the M&E sector, followed by the print segment with a one-fifth share."

Increasing digitalisation would affect TV and print subscription in the long run, necessitating rapid integration of digital media into traditional segments, said Rakshit Kachhal, associate director, Crisil Ratings. Crisil expects theatre collec-

3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for the

acquisition up to 64,688 (Sixty Four Thousand Six Hundred and Eighty-Eight) Equity Shares of the face value of Rs.10/- each


representing 26.00% of the Equity Share Capital/Voting Capital of

the Target Company at a Price of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) ("Offer

TDC Members are Independent Directors on the Board of the Targ

Company. None of them has entered into any other contract or has

Company. They do not have any Equity holding in the Target



tions for film exhibition, which was hit the hardest by the Covid pandemic, to surpass pre-pandemic levels with strong 30% growth next fiscal, after making a comeback in FY23. The addition of screens amid rising occupancy will support the growth. "While moviegoers are back in cinema halls, increased OTT consumption could impact theatrical collections. Some of the pandemic-driven changes in consumerbehaviourmayleadto structural changes in business models in the M&E sector over the long term and will need to be monitored," said Kachhal.

INERTIA STEEL LIMITED Registered Office: 422, Tulsiani Chamber, Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel. No. +91-022-22832381; E-mail: contact@inertiasteel.com; Website: www.inertiasteel.com. Corporate Identification Number L51900MH1984PLC033082

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Inertia Steel Limited ("Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Mr. Vasantrai Ratilal Mehta ("Acquirer"), to the Public Shareholders of the Target Company "Shareholders") under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011"). 4th January, 2023

Price"), payable in Cash.

	other contract/relationship), if any		ompany. None of them has entered into any of her relationships with the Target Company	iner contract or nas
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members		trading in the Equity Shares of the Target Cone by any of the IDC Members.	Company has beer
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.		None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirer in their personal capacities.	
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members		No trading in the Equity Shares/Other Securities of the acquirers by IDC Members	
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Pu the rea	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer. IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. IDC also draws the attention of Public Shareholders to the current	
		sh da off	are price which has exceeded the open offe te. The shareholders may therefore indepen- er and take an informed decision in the bes	er price after the PA dently evaluate the t of their interests.
12	Summary of reasons for the recommendation		C has taken into consideration the following commendation: IDC has reviewed The Public Announcement ("PA") dated 29/05 The Detailed Public Statement ("DPS") which (10/2022; The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 14/10 The Letter of Offer ("LOF") dated 23/12/2022, used on the review of PA, DPS, DLOF and LOF er of the view that the Offer Price is in line we escribed by SEBI in the Regulations. The Equity Shares of the Target Company are lightly surgery of the definition of "Frequently traded and sub-regulation (1) of Regulation 2 of egulations on BSE. The Offer Price of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) is integulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulation and the following:	9/2022; in was published or 9/2022; and F, the IDC Members with the parameters sted and traded or d within which the hares" under clause the SEBI (SAST)
			Particulars	Price (in Rs. per
		1	The highest negotiated price per Equity	Equity Share) 10.00/-
			Share of the Target Company for	10.00
			acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer.	
		2	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA.	
		3	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA.	Not Applicable
			acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding	Not Applicable Not Applicable
		3	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA. The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded. The per equity share value is computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable.	Not Applicable Not Applicable Not Applicable
		3 4 5	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA. The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded. The per equity share value is computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable. Where the shares are not frequently traded, price is determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share.	Not Applicable Not Applicable Not Applicable 7.22/-*
		3 4 5 6 (*,4 8.0 Wi Hig En of 7.2 Va	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA. The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded. The per equity share value is computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable. Where the shares are not frequently traded, price is determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share. As certified by Bhavesh M Rathod proprietor of Co. Valuer (Membership No.: 119158) havin inte Spring, A wing, Rivali Park Complex, ghway, Borivali East, Mumbai 400066; Tel. No. nail: Info.cabhavesh@gmail.com has valued Target Company and calculated the fair valued (Rupees Seven and Twenty Two Paisa Oluation Report dated 19/09/2022).	Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable 7.22/-* of Bhavesh Rathooling an office at 12D Western Express : +91 9769113490 If the Equity Shares ue per share at Rs only) vide his Shares
13	Details of Independent Advisors, if any.	3 (*A & (WH High Fin of 7.2 Va In ab Off Re	acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an Open Offer. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA. The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 weeks (Twenty-Six) immediately preceding the date of the PA. The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded. The per equity share value is computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable. Where the shares are not frequently traded, price is determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share. As certified by Bhavesh M Rathod proprietor of the Control of the Control of the Complex, ghway, Borivali East, Mumbai 400066; Tel. No. In all: Info.cabhavesh@gmail.com has valued Target Company and calculated the fair value 22/- (Rupees Seven and Twenty Two Paisa O	Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable 7.22/-* of Bhavesh Rathooling an office at 12D Western Express : +91 9769113490 If the Equity Shares ue per share at Rs only) vide his Share sented in the table ager to the offer, the

None

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise

and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

FCI plans to award contracts for 2.5 MT of silos this week

11 MT capacity silos to be built with ₹9,400 cr investment

SANDIP DAS New Delhi, January 3

THE FOOD CORPORATION of India (FCI) is likely to award contracts for the construction of wheat silos with a capacity of 2.5 million tonne (MT) under the private public partnership (PPP) model this week, according to official sources.

These silos are expected to be built over the next two to three years, with investments of more than ₹2,200 crore.

Silos are sub-mandi yards, which could bring ease of procurement of grains for farmers and lead to significant reduction in logistical costs. Of 3.4 MT of silos awarded

to private entities, around 1.2 MT capacity has been created while 1.2 MT capacity storage facilities are at various stages of construction.

Last month, contracts for 1.1 MT capacities silos were awarded to private parties whose construction will commence shortly.

Sources said that private entities including Adani Agri Logistics and KCC Infrastructure have been awarded the contracts. Currently, the silos are being built under the design, build, fund, own and transfer (DBFOT) mode, underwhich the land is owned by the FCI and via the design, build, fund, own and operate (DBFOO) model, under which land belongs to private entities. Food ministry officials said

that after new contracts are awarded this week, total silos constructed and awarded will be 6 MT with an estimated investment of ₹6,000 crore.

This is part of a broader ₹9,400-crore project to build wheat silos with 11 MT of capacity during the next threefour years under the PPP mode.

BUILDING CAPACITY

Last month, contracts for 1.1 MT capacities silos were awarded to private parties whose construction will commence shortly

■ Sources said that private entities including Adani Agri Logistics and KCC Infrastructure have been awarded the contracts

■ Silos are sub-mandi yards, which could bring ease of procurement of grains for farmers and lead to significant reduction in logistical costs

These silos will be spread over 249 locations across Punjab, Haryana, Madhya Pradesh Uttar Pradesh, Rajasthan Gujarat, Maharashtra, Bihar West Bengal, Jammu, Uttarakhand and Kerala. Silos will be used for storing

wheat for the FCI. The corporation will use these for storage of wheat through a lease of 30 years with private entities. Fixed storage charges to be paid by the FCI to private entities, based on a per-tonne, per-year basis, are the bidding parameters. This fixed charge escalates

by 70% of the wholesale price index and 30% of the consumer price index.

Road & logistics sectors may grow 11-13% in FY23

RAJAT MISHRA New Delhi, January 3

THE ROAD AND logistics sector is expected to grow by 11-13% yo-y in FY23, but operating margins of firms are likely to moderate compared to the level in the current fiscal, according to rating agency Icra. The growth will be supported by a strong demand environment, coupled with continuation of form freight rates.

"The growth is supported by the base effect to an extent, given that FY2022 had a weak first quarter due to the second wave of covid-19," Icra said.

Also, the debt coverage metrics are expected to marginally moderate in FY23 and FY24 compared to the FY2022 levels owing to expected debt-funded capital expenditure for vehicle replacement required prior to the introduction of the scrap page policy, along with the rising interest rate regime. However, downside risks as

highlighted by Icra is the emergence of any further waves or new variants, as witnessed in a few countries, and its ripple effects on India, given its strong linkage to economic activity on an aggregate basis.

Corporate Identity No.: L67120RJ1994PLC008593 Regd. Off.: 3-4, CIRCLE VIEW APARTMENTS, 169, Fatehpura

DHRUVA CAPITAL SERVICES LIMITED

Sukhadia Circle, Udaipur 313001 Email : dhruvacapital@gmail.com Ph.: +91 0294 - 2425555, Website: www.dhruvacapital.com

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company will be held on Saturday, January 28, 2023, at 11,30 a.m. at the Corporate Office of the Co. at First Floor, 60-D Punchwati, Udaipur, Rajasthan 313001, to transact the business as mentioned in the Notice of EDGM dated December 30, 2022. Electronic transmission and physical dispatch of the EOGM Notice, Attendance Slip and

Proxy Form, have been completed on January 3, 2023. The Notice of EOGM is also available on the website of the Company i.e. www.dhruvacapital.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the Listing Regulation Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of EOGM ('remote e-voting') to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of EOGM. The Company has engaged CDSL for providing e-voting facility. The details of remote e-voting are given below: The remote e-voting will commence on Wednesday, January 25, 2023 from 9.00 A.M. and

ends on Friday, January 27, 2023 till 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after January 27, 2023 (5:00 P.M.) (ii) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date i.e. January 21, 2023.

(iii) Notice of EOGM has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as on December 30, 2022. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after December 30, 2022, & holding shares as on the cut-off date i.e. January 21, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request at dhruvacapital@gmail.com, or call at Tel: +91 0294 - 2425555.

(iv) Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. (v) The facility of casting vote shall also be made available at the EOGM and the eligible members attending the EOGM who have not cast their vote during remote e-voting period shall be able to cast their vote at EOGM through ballot paper. (vi) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the

EOGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani, CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeeieebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400001, at email: helpdesk.evoting@ cdslindia.com in. Telephone No.: 022 - 22725040.

Place: Udaipur Date: 03-01-2023

New Delhi

For and on behalf of the Committee of

Inertia Steel Limited

Director (DIN: 01341331)

Suresh J. Ajmera

(kailash Karnawat) Managing Director DIN: 00300998

For Dhruva Capital Services Limited



पेपर लीक मामला

तीन सरगना रिमाण्ड पर, 38 को भेजा जेल

उदयपुर. नगर संवाददाता | बहचर्चित आरपीएससी सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में रिमाण्ड पर चल रहे गिरोह के सरगनाओं ने पकड़े जाने के दो और तीन दिन पूर्व भी इसी तरह से 75 अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलवाई थी। मंगलवार को तीनों सरगनाओं सहित 41 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया, जहां तीनों सरगनाओं को दो दिन के पुलिस रिमाण्ड पर रखने और शेष 38 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इन आरोपियों की निशानदेही से पूर्व में जिन परीक्षार्थियों ने फर्जी परीक्षा दी एवं गिरोह के दो मुख्य सूत्रधार की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीतिसंह ने बेकरिया थाने में 23 दिसम्बर को असामाजिक तत्वों द्वारा सेकण्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को परीक्षा से पूर्व पेपर आउट कर लाखों रूपए प्राप्त कर पेपर उपलब्ध कराकर एक्सपर्ट के जरिए सोल्व करवाकर परीक्षा दिलवाते हुए एक बस पकड़ी थी। जिसमें टीम ने तीन सरगना, सात महिला अभ्यर्थियों सहित 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे अन्य दस्तावेज के साथ अत्याधनिक उपकरण जब्त किए। मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक ने मंगलवार को रिमाण्ड समाप्त होने पर गिरोह के तीन सरगना आरोपी नरेश कुमार पुत्र भागीरथ राम विश्नोई निवासी आम्या का गोलीया चितलवाना जालौर. पीराराम पुत्र रघुनाथराम विश्नोर्ट निवासी हेमा गुड़ा जालौर, सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्याक सुरेश कुमार पुत्र जगदीश विश्नोई निवासी रिढीया चोरा चितलवाना, बस चालक ओमप्रकाश पुत्र जगदीश विश्नोई निवासी वीरावा चितलवाना जालौर, भजनलाल पुत्र मोहनलाल विश्नोई

21 व 22 दिस. को भी 75 परीक्षार्थियों के बस में सोल्व करवाए थे पेपर



निवासी पुर सांचोर जालौर, जसवन्तपुरा जालौर में सैकण्ड ग्रेड अध्यापक रावताराम पुत्र पुनमा राम चौधरी निवासी हरियाली सांचौर जालौर, सुनील कुमार पुत्र रघुनाथ राम विश्नोई निवासी रताणीयों की ढाणी हरियाली सांचौर जालौर, जगदीश कुमार पुत्र केशाराम जाट निवासी मीरपुरा करड़ा जालौर, नितीश विश्नोई पुत्र बुधाराम विश्नोई निवासी नाईच विश्नोईयों की ढाणी राणोदर चितलवाना जालौर, श्रवण कुमार पुत्र शैताना राम निवासी करावडी सांचौर जालौर, रघुनाथराम पुत्र शैताना राम विश्नोई निवासी सउ की ढाणी रम्पोदर चितलवाना जालौर, सुखदेव पुत्र गंगाराम निवासी इशरवाल गोलिया साचौर जालौर, दिनेश पुत्र तेजाराम विश्नोई निवासी विश्नोई की ढाणी नेनोल सांचोर जालौर, मगनलाल पुत्र हेमाराम जाट निवासी सटालोई केरीया चितलवाना जालौर, भजनलाल पुत्र बाबूलाल विश्नोई निवासी फेरणी की ढाणी पुर सांचौर जालौर, गंगाराम पुत्र वगताराम मेघवाल निवासी सागडवा डवल चितलवाना जालौर, भैराराम पुत्र रायचंद्र राम निवासी धमणा सांचौर जालौर, अशोक सारण पुत्र बाबूलाल सारण विश्नोई निवासी राजीव नगर पुर सांचौर जालौर, अर्जुन कुमार पुत्र पारशाराम पुरोहित जोशी निवासी बालेरा सरवाणा जालौर, सुभाष कुमार पुत्र भगवानाराम विश्नोई निवासी धमाण का गोलीयां सांचौर जालौर, अरविन्द कुमार पुत्र रामलाल निवासी सिद्धेश्वर सांचौर जालौर, लाभुराम पुत्र धमाराम जांगीड निवासी चितलवाना जालौर, सांवलाराम पुत्र

निवासी खारा करडा जालीर. गणपतलाल पुत्र प्रभुराम विश्नोई निवासी रोडिया प्रकाश विश्नोई पुत्र विरदा राम निवासी दाता सांचौर जालौर,

सुनील कुमार पुत्र जालाराम विश्नोई निवासी भाटीप करडा जालौर, रमेश कुमार पुत्र देवाराम जाट निवासी देवड़ा चितलवाना झाब जालौर, बदराराम पुत्र भगाराम चौधरी कलबी निवासी दाता जालौर, रमेश पुरोहित पुत्र कृष्णलाल पुरोहित निवासी विधा वाटी सांचौर जालौर, महेंद्र कुमार पोसाराम प्रजापत निवासी तिलक रोड कुम्हारों का वास निवासी जालौर, दिनेश चौधरी पुत्र भगवाराम जाट निवासी गुदाउ करडा जालौर, कमलेश कमार पुत्र मनोहरलाल विश्नोई निवासी परावा झाब जालौर, सुरेश चौधरी पुत्र मायगाराम चौधरी निवासी कालोनीयों की ढाणी अरणाय करडा जालौर, नागराज पुत्र नैनाराम निवासी शांतिनगर सूरजपोल जालौर, कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र गणेश सीयोल पुत्र सतपाल जाट निवासी माण्डीया खुर्द मथानिया जोधपुर, सुखराम पुत्र वीराराम विश्नोई निवासी वीरावा चितलवाना जालौर, रमेश राम पुत्र बगदाराम निवासी मेघवालों का वास वाडा भाडकी बागोडा जालौर को एडीजी क्रम एक की अदालत में अपर लोक अभियोजक मुस्तिकल खान के जरिए पेश किया। अनुसंधान अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी को बताया कि रिमाण्ड अवधि के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सुरेश कुमार विश्नोई, पीराराम और नरेश द्वारा 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक लगातार अपराधिक कृत्य करना सामने आया है। जिसमें 20 दिसम्बर

द्रातःकाल

बायोमेट्रिक से खुलासा : दो फर्जी परीक्षार्थी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीतिसंह ने मुखबीर की सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर को सेकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में बस में पर्चा लीक कर हल करते गिरफ्तार किए सुरता की ढाणी निवासी सुरेष्ठ पुत्र रामलाल विष्टनोई केंद्र स्थान पर परीक्षा देने आए सेवडिया निवासी गणपतलाल पुत्र प्रभुराम विष्नोई और सरजाणियों की ढाणी निवासी लूणा पुत्र ठकराराम सारण के स्थान पर पर परीक्षा देने आए राजीवनगर पुर जालौर निवासी अशोक पुत्र बाबूलाल सारण को गिरफ्तार किया था। इन दोनों फजी परीक्षार्थियों का खुलासा अंगूठे की बायोमेट्रिक कराई तो आधार कार्ड नहीं खुला जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में अपना फोटो और प्रवेश कार्ड में अपना फोटो चस्पा करवा दिया ताकि वे पकड़ में नहीं आ सके लेकिन पुलिस की टीम ने बयोमेट्रिक के आधर पर इन दोनों फर्जी अभ्यर्थियों का खुलासा किया।

की रात्रि का करीब 40 अभ्यर्थियों को वातड़ा होटल के सामने परीक्षा में आने वाला पेपर पढ़ाना और परीक्षार्थियों को 21 दिसमबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतापनगर छोड़ना और 21 दिसम्बर की रात्रि को 30 से 35 अभ्यश्रियों को 22 दिसम्बर को परीक्षा में आने वाले पेपर को गोगुंदा टोल नाके से आगे ढाबे के सामने बस में ही परीक्षा में आने वाला पेपर लीक कर पढ़ाना व परीक्षा के लिए भुवाणा चौराहा पर छोड़ना सामने आया है। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि 23 दिसम्बर को द्वितीय शिक्षक परीक्षा के लिए सुखेर स्थित होटल हिमांशी इन 24 दिसम्बर को होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को रुकवाना व परीक्षा में आने वाला पेपर पढ़ाना सामने आया है। गिरोह के सरगना सरकारी विद्यालय का प्रधानाध्यापक सुरेश विश्नोई, पीराराम विश्नोई व नरेश कुमार विश्नोई से गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण के बारे में पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की जानी है साथ ही पूर्व में जिन फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलवाई गई उनके बारे में पूछताछ कर

उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। पत्रावलं का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम एक के पीठासीन अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने गिरोह के सरगना नरेश, पीराराम व सुरेश को 5 जनवरी तक पुलिस रिमाण्ड पर रखने के आदेश दिए जबकि मामले में लिप्त 38 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

सरक्षा के बीच दो बसों से लाए आरोपियों को

तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आधा दर्जन से अधिक थानाधिकारी तथा एएसआई, हैंड कांस्टेबल व कांस्टेबल जो एटीएस में शामिल है व आरएसी जवानों व कमाण्डों के साथ आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अपराह्न चार बजे न्यायालय में लेकर पहुंचे। जहां इन्हें अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम एक की अदालत में पेश किया। आरोपियों को जिस समय न्यायालय में पेश किया उस दौरान बसों के इर्द गिर्द अधिवक्त ाओं एवं कोर्ट में आए अन्य प्रकरणों में पेशी पर आए मुवक्तीलों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस ने मशक त कर उन्हें बसों से दूर किया गया। पेश करने से लेकर वापस ले जाने तक आरोपियों को बस से नहीं उतारा गया।

सारण व ढाका डनामी राशि २५-२५ हजार की

गिरोह के मास्टरमाइंस व भूपेंद्र पुत्र पाबूराम सारण निवासी सरगना परावा चितलवांबा जालौर और सुरेश ढांका पुत्र मांगीलाल विश्वोई निवासी गंगासरा अचलपुर सरवाना सांचौर जिला जालौर हाल नेमीनगर वैशालीनगर जयपुर के खिलाफ की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा राजस्थान द्वारा सैकण्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा के पेपर लीक मामले में दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए ईनाम घोषित किया है। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जो भी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा या कराएगा या सचना देगा उन्हें यह परस्कार राशि प्रदान की जाएगी। बता दें सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रूपए इनाम घोषित किया था।

निःशुल्क अंतरंग अर्थ भगंदर क्षार-सूत्र

शल्य चिकित्सा शिविर

सीडब्ल्यूसी के प्रयासों से मानसिक विमंदित को मिले अभिभावक

गुमशुदा बालक को देख माता-पिता बोले, पुनर्जन्म हो गया



उदयपुर। सीडब्ल्यूसी के प्रयासों से उत्तरप्रदेश से लापता हुआ एक 14 वर्षीय बालक उसके परिजनों को पुन: मिल गया। जिसे देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के अनुसार साजन वनवासी (14) पुत्र मजनू वनवासी निवासी मदना अलीपुर उत्तरप्रदेश चाइल्ड लाइन उदयपुर को मिला था। बालक मानसिक रूप से कमजोर होने से अपने घर का पता बताने में असमर्थ था। निराश्रित बालक गृह नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं सीडबल्यूसी के प्रयासो से बालक के घर एवं माता-पिता से संपर्क कर मंगलवार को माता-पिता को सुपुर्द किया गया। बालक के माता पिता को ढूंढते हुये अनेक बार उत्तरप्रदेश के विभिन्न सीडबल्यूसी अध्यक्ष से संपर्क किया गया। एक बार बालक को पुलिस को स्कोर्ट कर कानपुर भेजा भी गया, परंतु अभिभावकों का पता नहीं लग पाया और पुन: बालक उदयपुर लौट आया। आखिर सीडबल्यूसी की मेहनत रंग लाई एवं बच्चे के परिजनों का पता लगाकर सौंपा।

डॉ. रक्षित आमेटा वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित



उदयपर। भारत की रसायन शास्त्र की वर्ष 1924 मे स्थापित सर्वोच्च संस्था इंडियन केमिकल सोसाइटी, कोलकाता के पदाधिकारियों के इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हुए चुनाव में उदयपुर शहर के डॉ. रक्षित आमेटा वाइस प्रेसिडेंट पद पर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने पूर्व में भी सोसाइटी में चयनित होकर दो बार कार्डिसल सदस्य व

एक बार साइटिस्ट–इन–चार्ज के रूप में अपनी सेवाए दी है। डॉ. रक्षित ने रसायन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

राणावत राजस्थान तैराकी दल कप्तान नियुक्त



उदयपुर। राजस्थान तैराकी संघ सचिव चन्द्रगुप्त सिंह चौहान ने बताया कि रणवीर सिंह राणावत को दिल्ली में 5 से 7 जनवरी को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य की 20 सदस्यीय दल का कप्तान नियुक्त किया गया है, राणावत स्वयं 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में प्रतिभागी

रहेंगे। राणावत राष्ट्रीय एथलीट एवं तैराक है तथा भारत का अंतराष्ट्रीय स्तर पर जापान, फिलीपींस, वियतनाम में प्रतिनिधित्व कर चुके है।



कीर्तिवर्द्धन ने जीता राष्ट्रीय पदक

उदयपुर (वि)। इंदौर में आयोजित 37वीं यूथ नेशनल बॉस्केटबॉल खेलकृद प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में उदयपुर के कीर्तिवर्द्धनसिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। पिता पुष्पेन्द्रसिंह ने बताया कि कीर्तिवर्द्धन के प्रदर्शन की सभी ने सराहना की

आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि करने पर किया सीज





पानी का टैंकर भी खड़ा रखा गया। लोगों द्वारा कई बार इसकी निगम

युवक का अपहरण करना और नाकाबंदी

देख छोड़ भागने का मामला

पुलिस के अनुसार मामला झूठा, खुद अपनी इच्छा से गया था

आरोपी उसे तितरड़ी के पास से जबरन अपहरण कर तो यह आराम से लेटा हुआ था। वहां से सविना थाने

अपने गांव की ओर ले जा रहे थे। इस दौरान उसके पर लाया गया तो विष्णु ने लिखित में दिया कि उसका

भाई को पता चला तो भाई ने थाने पर रिपोर्ट दी, जिस अपहरण नहीं हुआ था और मजदूरों से जो भी हिसाब

पर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर बिछीवाड़ा थाने था वह पूरा हो गया है। इसके बाद अब विष्णु ने पुन:

की मदद से नाकाबंदी करवाई, जहां पर पुलिस एसपी के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया है। जिस पर

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत भूतल पर बनाए गए आवासीय परिसर जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था उसे सीज किया। इसी के साथ परिसर के बाहर बनाए गए अवैध चबूतरे, लोहे के पिंजरे एवं पानी के टैंक को तोड़कर जप्त किया गया।



नगर संवाददाता . उदयपुर। शहर के सविना थाना क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर में एक युवक ने कुछ युवकों के खिलाफ उसका पुलिस का कहना है कि प्रार्थी विष्णु ठेकेदार है और अपहरण कर ले जाने और पुलिस नाकाबंदी को देखकर यह मजदुरों के पैसे नहीं दे रहा था। इस पर मजदुर इसे छोड़ जाने का मामला दर्ज करवाया है। इधर पुलिस का 🏻 बार-बार परेशान कर रहे थे। इस दौरान इसने मजदूरों कहना है कि यह युवक अपनी इच्छा से गया था और को हिसाब करने के लिए कहा और मजदूरों के साथ रजत पदक प्राप्त किया। जिला इसके भाई ने परिवाद दिया था तो इसने खुद आकर विछीवाड़ा की ओर चला गया, जहां पर हिसाब को वॉलीबाल के सचिव हेमराज अपनी इच्छा से जाना बताया था और लिखित में दिया लेकर विवाद हो गया। इस युवक के भाई ने सविना सोनवाल ने बताया कि 3 था। पुलिस के अनुसार विष्णु पुत्र शंकर मीणा निवासी धाने में अपहरण की रिपोर्ट दी, जिस आधार पर पुलिस जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक पडूणा फलां भदावत ने आरोपी राजू, सुखलाल और ने कॉल लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि विष्णु दिल्ली में आयोजित सब जुनियर तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि बिछीवाड़ा में है। बिछीवाड़ा पुलिस को मौके पर पहुँची

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेवाड की बेटी भूमि कोठारी ने राजस्थान टीम में अपनी जगह बनाई। दोनों का राजस्थान टीम में चयन और पदक प्राप्त होने पर जिला वॉलीबाल संघ ने बधाई दी।

नदनी और भूमि ने मेवाड़



उदयपुर (वि)। मध्य प्रदेश के पन्ना में आयोजित 25वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप में उदयपुर की नंदनी गुर्जर ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया और टीम ने

DHRUVA CAPITAL SERVICES LIMITED Corporate Identity No.: L67120RJ1994PLC008593

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra-Ordinary General Meeting (EDGM) of the Company will be held on Saturday, January 28, 2023, at 11.30 a.m. at the Corporate Office of the Co at First Floor, 60-D Punchwati, Udaipur, Rajasthan 313001, to transact the business a mentioned in the Notice of FOGM dated December 30, 2022

Proxy Form, have been completed on January 3, 2023. The Notice of EOGM is also available on the website of the Company i.e. www.dhruvacapital.com and on the website of Centra of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Managemen votes on all the resolutions set forth in the Notice of EOGM. The Company has engaged CDSI

ends on Friday, January 27, 2023 till 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after January 27, 2023 (5:00 P.M.). ii) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up

of Members/Beneficial Owners as on December 30, 2022. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after December 30, 2022, & holding shares as on the cut-off date i.e. January 21, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request at dhruvacapital@gmail.com, or call at Tel: +91 0294 - 2425555.

(v) The facility of casting vote shall also be made available at the EOGM and the eligible members attending the EOGM who have not cast their vote during remoti e-voting period shall be able to cast their vote at EOGM through ballot paper (vi) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani, CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400001, at email: helpdesk.evoting@ cdslindia.com in. Telephone No.: 022 - 22725040.

Date: 03-01-2023

(kailash Karnawat) Managing Director DIN: 00300998

नाकाबंदी को देखकर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गर्भवती महिलाओं को बांटे 250 पौष्टिक आहार किट्स

उदयपुर (वि)। जीतो लेडीज विंग उदयपर की ओर से पन्नाधाय राजकीय जनाना अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को 250 पौष्टिक आहार किट वितरित किये। चेयरमैन विजयलक्ष्मी गलुण्डिया ने बताया हेल्थ एवं न्युट्शिन तथा साधार्मिक सेवा फोकस एरिया के अंतर्गत गर्भवती महिलाओ को एक किलो गुड़, एक किलो



म्ंगफली, एक किलो भुना चना तथा नारियल गोला के किटस वितरित किये गए। कार्यक्रम में जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशीला खोईवाल, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर मधुबाला चौहान, डॉक्टर गांधी, प्रीती सोगानी, रेखा जैन, मंजू बोर्दिया, सोनल बोल्या, झंकार मोगरा, सुशीला मेहता, बिना मारु, सुनयना जैन उपस्थित थीं।

शिक्षिका दिवस पर 600 शिक्षिकाओं का सम्मान

सावित्री बाई फुले और जयपाल सिंह मुण्डा जयन्ती समारोह सुखाड़िया रंगमंच पर सम्पन्न

उदयपुर (वि)। डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जिला शाखा उदयपुर और सावित्री बाई फुले पर्यावरण व शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षिका दिवस पर 600 शिक्षिका का सम्मान सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल उदयपुर में किया गया। नरेश पूर्बिया ने बताया कि सम्मान समारोह मुख्य अतिथि ताराचंद मीणा जिला कलेक्टर उदयपुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश कुमार खटीक संभागीय सचिव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान थे एवं विशिष्ट अतिथि ओपी बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर, रागिनी डामोर उपायुक्त नगर निगम उदयपुर, परशराम सुयल प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ आंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर



राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिबा फुले जागृति पहनाकर पुष्प अर्पित किए गए एवं मंच, प्रो. सुधा चौधरी विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर थे। सभी अतिथियों

तस्वीर के समक्ष मोमबत्ती जलाई गई। मुख्य अतिथि ताराचंद मीणा ने कहा कि आज शिक्षा का बहुत महत्व है एवं सोसायटी राजस्थान थे। दिनेश माली ने ने सावित्रीबाई फुले एवं डॉक्टर भीमराव सम्मानित होने वाली शिक्षिका का कर्तव्य उपस्थित थे।

वे शिक्षा के दीपक दूर दूर तक फैलाएं और समाज को शिक्षित करने का काम करें। सम्मानित होने वाली शिक्षिका को उपरना ओढ़ाकर, सावित्री बाई फुले की तस्वीरें एवं साहित्य भेंटकर सम्मानित किया गया। प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिला के नयागांव में हुआ था। कार्यक्रम में प्रदीप नरवारिया, दिनेश माली, एडवोकेट पीआर सालवी, बाबूलाल घावरी, भेरू लाल कलाल प्रकाश मौर्य, शंकरलाल जीनगर, सुख संपत बागड़ी, राजेंद्र सेन, अर्जुन सोनवाल, शेखर लोट ,नानालाल चंगेरिवाल, बी आर बामनिया रामजीलाल वर्मा, दिनेश पूर्बिया, सूर्य प्रकाश सुहालका, लोकेश चौधरी, राणा जायसवाल, कजोडी लाल पुर्बिया

माली समाज ने सावित्री बाई फुले जयंती मनाई



उदयपुर। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर माली समाज पंचायत संस्थान उदयपुर द्वारा चित्रकूट नगर स्थित निर्माणाधीन समाज भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष कैलाश धोलासिया सचिव भरत कुमार तलाच,तेजराम असावरा,शंकर लाल माली, देवी लाल माली, भेरूलाल पानडिया,जय प्रकाश माली, भूपेंद्र चौहान,गोपाल माली, रामचंद्र माली सहित अनेक समाज बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज को सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। एवं आने वाले कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया।

क्षेत्र झाडोल में जारी विशाल दस नारायण लाल, परिचारक सोमाराम दिवसीय नि:शुल्क अंतरंग अर्श निर्भय सिंह एवं मुकेश की टीम ने भगंदर क्षार-सूत्र शल्य चिकित्सा कुल 65 अर्श भगंदर रोगियों की शिविर का समापन मंगलवार को क्षार-सूत्र विधि से शल्य चिकित्सा

उदयपुर। आयुर्वेद विभाग राजस्थान अर्श रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील सरकार द्वारा विशिष्ट संगठन रघुवंशी, डॉ विष्णु, डॉ रामलाल, अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य कंपाउंडर शंकरलाल, कंपाउंडर हुआ। अतिथि क्षेत्रीय विधायक को। काय चिकित्सा में डॉ.राकेश बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रमुख सोलंकी, डॉ.संजीव मैथिल, ममता कुंवर पंवार, समाजसेवी डॉ.राकेश ईनानी एवं डॉ. शीला ने गुणवंत सिंह झाला रहे। अतिथियों ने सेवाएं दी। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ क्षेत्र के औषधालयों में सुविधा राकेश मीणा ने कल 209 बच्चों को विस्तार के साथ जीर्णोद्धार करवाने की बात कही। समाजसेवी भंवर किया।स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति सिंह पवार, नीलम राजपुरोहित, सरपंच श्रीमती आशा देवी, गिरजा शंकर शर्मा, ललित कुमार शर्मा,

आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ.प्रद्युम्न कुमार उपनिदेशक मीणा, समन्वयक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शोभालाल औदीच्य, सहायक निदेशक डॉ राजीव भट्ट आदि मौजूद रहे। आयुर्वेद विभाग के इस शिविर में कुल 1578 बहिरंग रोगियों को नि:शल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाकर नि:शुल्क औषधियां

वितरण की गई। डॉ. औदिच्य ने बताया कि

रोड, शनिदेव मंदिर के पास भीलवाड़ा - 311001,राजस्था पा पता 73, पहली मंजिल, लक्ष्मी टॉवर वैंक के ऊपर, सुभाष नगर,यूआईर्ट

बाल चिकित्सा से लाभान्वित

बाला अहारी, डॉ.रीना पारगी ने 176

महिला रोगियों की चिकित्सा की

पंजीकृत कार्यालयः 318, डीएलएक मैगनोलियार सेक्टर-42, गोल्फ कोर्स रोड, गुडगांव-12200

कास एक्स्टन । राड,सेक्टर ६१, गुरुग्राम –12210 CIN: U65922HR2016PTC057984

पार्व : Ub3922HR2U10F1 (Ub3)984 यह उम्मीद हाउसिंग फाइनेस प्राइवेट लिमिटेर की भीलवाडा, राजस्थान के स्थानांतरण के बारे में जनता को सूचित करने के लिए हैं। जो, 05.04.2023 से प्रमावी होगा।

पुराना पता प्रथम तल राघे टॉवर, पुर

NIT/2022-23/24104-15 <u>ितिवाः सूचना /2822-23</u> Date 03.01.2023 निम्नित्तिकत कार्यों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अभियात्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में अनुभव

कार्यं का विवरण	कुल अनुमानित लामत (रु.)	विविद्या सूचना रांख्या
P & F Self Supporting Truss Less Roof Connection Building at RHC & Misc. Remaining Civil work in AG Building at RHC, Jodhpur (02 works) UBN: (1)RRC2223WSOB01027 (2)RRC2223WSOB01028	36.57 Lakh	\$-481/22-23
Electrical & A.C. work in Sports Complex Bundi & Electro Mech. Work in Swmming Pool, Sports Complex, Bundi. (02 works) UBN: (1)RRC2223WSOB01024 (2)RRC2223WSOB01025	223.58 Lakh	1 -486/22-23
ශිරිය से सम्बर्धिया प्रपत्र में निविद्य शुन्क, धरोहर रात्रि, इपमलोड करने व खोलने की तारीक सहिर http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in तथा http rsrdc पर देखा जा सकता है। इपयुक्त संवेदकों को अपने डिगिरल स्थाबर के नाश्चन से वेबसाईर http	://roads.rajas	than.gov.in/

Regd. Off.: 3-4, CIRCLE VIEW APARTMENTS, 169, Fatehpura Sukhadia Circle, Udaipur 313001 Email : dhruvacapital@gmail.com Ph.: +91 0294 - 2425555, Website: www.dhruvacapital.com

Electronic transmission and physical dispatch of the EOGM Notice, Attendance Slip and

Denository Services (India) Limited (CDSL), i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to provisions and Administration) Rules 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the Listing Regulation Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of EOGM ('remote e-voting') to the members to exercise their for providing e-voting facility. The details of remote e-voting are given below : I) The remote e-voting will commence on Wednesday, January 25, 2023 from 9.00 A.M. an

share capital of the Company as on the cut-off date i.e. January 21, 2023. (iii) Notice of EOGM has been sent to all the members whose names appeared in the Registr

iv) Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequ

EOGM but shall not be entitled to cast their vote again.

For Dhruva Capital Services Limited Place: Udaipur